

## Class Notes

कक्षा: चौथी

विषय: हिंदी

पाठ - 9: स्वतंत्रता की ओर

पाठ - 8,9: सर्वनाम, विशेषण  
(अभ्यास पत्र)

### प्रश्न 1- सही विकल्प चुनिए -

(क) धनी कितने साल का था ?

- अ) सात      ब) आठ  
स) नौ        द) दस

(ख) धनी और उसके माता-पिता रहते थे-

- अ) सत्याग्रह आश्रम में      ब) गोपाल आश्रम में  
स) गौतम आश्रम में        द) साबरमती आश्रम में

(ग) गांधीजी और उनके साथी बैठकर योजना बना रहे थे -

- अ) बगीचे में      ब) बरामदे में  
स) कमरे में      द) आश्रम में

(घ) धनी ने बिन्नी को बाँधा -

- अ) नींबू के पेड़ से      ब) झाड़ी से  
स) आम के पेड़ से      द) रस्सी से

(ङ) गांधीजी अपनी यात्रा पर जा रहे थे -

- अ) बस से      ब) पैदल  
स) ट्रेन से      द) हवाई जहाज़ से

(च) बूढ़ा बिंदा खोद रहा था -

- अ) आलू      ब) मूली  
स) गाजर      द) प्याज

(छ) संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं -

- अ) सर्वनाम      ब) वचन  
स) लिंग      द) वर्ण

(ज) सर्वनाम के भेद होते हैं -

- अ) चार      ब) पाँच  
स) छह      द) तीन

(झ) 'जो जैसा करेगा, वो वैसा भरेगा' सर्वनाम है -

- अ) प्रश्नवाचक सर्वनाम      ब) निजवाचक सर्वनाम  
स) संबंधवाचक सर्वनाम      द) निश्चयवाचक सर्वनाम

(ञ) संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं -

- अ) विशेषण      ब) क्रिया विशेषण  
स) क्रिया      द) शब्द

(ट) संख्या का बोध कराने वाले विशेषण हैं -

- अ) लाल,मोटा, मीठा      ब) चार,दो,तीन  
स) यह,वह,वे      द) कुछ चीनी, थोड़े फल, थोड़ा आटा

प्रश्न 2- धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था ?

प्रश्न 3- गांधी जी (बापू) के बारे में पाँच वाक्य लिखिए।

प्रश्न 4- धनी यात्रा पर जाने के लिए क्यों उत्सुक था ?

निर्देश-



उपर्युक्त कार्य अपनी सुलेख कॉपी में ही करना है।



उपरोक्त लेखन सामग्री घर पर ही रहकर तैयार की गई है।